

प्र. 5. अणुव्रत आन्दोलन क्या है? इसकी आचार संहिता प्रतिपादित करें।
What is Anuvrat movement? Explain its code of conduct.

प्र. 6. अहिंसा प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? समझाइये।
What do you understand by training in nonviolence? Write in detail.

प्र. 7. टिप्पणी लिखें।/Write short notes.
(i) जैन आचार / Jain ethics
(ii) शाकाहार / Vegetarianism
(iii) जैन जीवनशैली / Jain life style

प्र. 8. टिप्पणी लिखें।/Write short notes.
(i) पर्यावरण संतुलन के उपाय / Ways of balanced environment
(ii) अनेकान्त / Anekant
(iii) अहिंसा / Nonviolence



B.COM. THIRD YEAR EXAMINATION, 2015
(Correspondence Course)

PAPER -I : JAIN CULTURE AND VALUE OF LIFE (PART-II)

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

निर्देश : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt any five questions. Each question carries equal marks.

प्र. 1. जैन कर्मवाद एवं पंचसमवाय सिद्धान्त को विस्तार से प्रतिपादित कीजिए।
Explain in detail the principles of Jain Karmvada and Panchasamvaya.

प्र. 2. सत् का स्वरूप प्रतिपादित कीजिए।

Explain the nature of Sat (existence)

प्र. 3. अनुप्रेक्षा: मूल्य विकास की प्रक्रिया है। सिद्ध करें।

Anupreksha is a value development process. Prove it.

प्र. 4. संतुलित शिक्षा प्रणाली से क्या तात्पर्य है? जीवन विज्ञान एक संतुलित शिक्षा प्रणाली है, प्रतिपादित करें।

What do you mean by balanced education system? Jeevan Vigyan is a balanced education system, explain it.

प्र. 3. उद्यमी के सामाजिक दायित्व से आप क्या समझते हैं? समाज के किन वर्गों के प्रति उद्यमी को इस दायित्व को पूरा करना चाहिए।

What do you understand by social responsibility of entrepreneurs? To which section of society should entrepreneur fulfil his responsibility?

अथवा/OR

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए।

Critically examine the development of Entrepreneurship Development Programme.

प्र. 4. प्रादेशिक औद्योगिक विकास में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण बताइए तथा ऐसे असंतुलन को दूर करने में उद्यमियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

State the reasons for regional imbalance in industrial development and explain the role of entrepreneurs in removing such imbalance.

अथवा/OR

निर्यात संवर्द्धन में उद्यमियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

Discuss the role of entrepreneurs in export promotion.

प्र. 5. नव प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं? नवप्रवर्तक के रूप में एक उद्यमी की भूमिका की विवेचना कीजिए।

What do you mean by Innovator? Discuss the role of entrepreneurs as an Innovator.



(ii)

(i) कृ.पू.उ./P.T.O.

B.COM. THIRD YEAR EXAMINATION, 2015 (Correspondence Course)

PAPER -II : FUNDAMENTAL OF ENTREPRENEURSHIP

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

निर्देश : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt all questions. Each question carries equal marks.

प्र. 1. उद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट करें। इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें।
Explain the concept of entrepreneurship. Describe the characteristics of entrepreneurship.

अथवा/OR

एक सफल उद्यमी की विशेषताओं का वर्णन करें।

Describe the characteristics of a successful entrepreneur.

प्र. 2. उद्यमी वातावरण से आप क्या समझते हैं? उद्यमी वातावरण की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझाईए।

What do you mean by entrepreneurial environment? Clearly explain the nature of entrepreneurial environment.

अथवा/OR

किसी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के लिए उठाए जाने वाले कदमों की व्याख्या कीजिए।

Discuss the various steps taken for the establishment of a business venture.

प्र. 5. टिप्पणी करो- /Write Short Notes on

- (i) वित्तीय विवरण / Financial Statement
- (ii) तुलनात्मक वित्तीय विवरण / Comparative Financial Statement

प्र. 6. चालू अनुपात 2:1 / Current Ratio 2:1

तरल अनुपात 1:1 / Quick Ratio 1:1

कार्यशील पूंजी 60,000 / Working Capital 60,000

गणना करो/Calculate

- (i) चालू सम्पत्ति / Current Assets
- (ii) चालू दायित्व / Current Liabilities
- (iii) स्कन्ध / Stock

प्र. 7. रोकड़ प्रवाह क्या है निम्न पर प्रकाश डालिए।

What is Cash flow Describe the following terms.

- (i) संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह / Cash flow from operating Activities
- (ii) वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह / Cash flow from financing Activities

प्र. 8. सामग्री विवरणों की गणना करो।

Calculate Material Variances.

	SQ	SP	AQ	AP
A	100	10	500	25
B	200	20	400	15

प्र. 9. बजट नियंत्रण के उद्देश्य व लाभों का वर्णन करो।

Describe objects & Importance of Budget Control.



(ii)

D131

CBCOM303

B.COM. THIRD YEAR EXAMINATION, 2015

(Correspondence Course)

PAPER -III : MANAGEMENT ACCOUNTING

TIME : 3.00 Hrs.

MM : 70

निर्देश : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt any five questions. Each question carries equal marks.

प्र. 1. प्रबंध लेखांकन क्या है? इसके महत्व का वर्णन करो।

What is Management Accounting? Describe its Importance?

प्र. 2. गणना करो।/Calculate

- (i) लाभ मात्रा अनुपात / PIV Ratio
- (ii) सम विच्छेद बिन्दु / BEP
- (iii) सुरक्षा सीमा / Margin of Safty
- (iv) अंशदान / Contribution

बिक्री / Sales

5,00,000

परिवर्तनशील लागत / Variable Cost

2,00,000

स्थिर लागत / Fixed Cost

1,00,000

लाभ / Profit

2,00,000

प्र. 3. कोष प्रवाह क्या है? एक कंपनी में इसके महत्व का वर्णन करो।

What is Fund flow? Describe Its Importance in a company.

प्र. 4. रोकड़ बजट क्या है? इसे एक संस्थान के द्वारा कैसे बनाया जाता है?

What is Cash Budget? How is it prepared by an Institution.

(i) कु.पू.उ./P.T.O.

प्र. 7. सामान्य क्षय, असामान्य क्षय तथा असामान्य बचत को समझाइए। प्रक्रिया खातों में इनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? / Explain normal wastage and abnormal wastage and abnormal effective. How should these be dealt within process accounts?

प्र. 8. निम्न तथ्यों के आधार पर (i) लागत लेखों के आधार पर दिखाया जाने वाला लाभ तथा (ii) वित्तीय लेखों से इसको मिलान करने के लिए विवरण-पत्र बनाइये। / From the information given below (i) determine the profit as it would be shown by cost accounts; and (ii) prepare a statement reconciling it with the profit shown by financial accounts.

Trading and Profit and Loss Account

For the year ending 31st Dec., 2014

To Material Consumed	1,00,000	By Sales (1,00,000 Units)	2,00,000
To Direct Wages	50,000		
To Indirect Exp. (Works)	30,000		
To Office Exp.	9,000		
To Selling and distribution Exp.	6,000		
To Net Profit	5,000		
	2,00,000		2,00,000

कारखाने का सामान्य उत्पादन 1,50,000 इकाइयाँ है। कारखाना व्यय स्थिर प्रकृति के रु. 18,000 है। सभी व्यावहारिक दृष्टिकोण से कार्यालय व्यय स्थिर है। बिक्री एवं वितरण व्यय रु. 3,000 तक स्थिर है तथा शेष विक्रय के साथ परिवर्तित है। / The normal output of the factory is 1,50,000 units. Works expenses of fixed nature are Rs. 18,000 office expenses are constant for all practical purposes. Selling and distribution expenses are constant to extent of Rs. 3,000 and the balance varies directly with sales.



(iv)

B.COM. THIRD YEAR EXAMINATION, 2015

(Correspondence Course)

PAPER -IV : COST ACCOUNTING

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

निर्देश : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt any five questions. Each question carries equal marks.

प्र. 1. मई, 2014 माह के लिए सामग्री की किसी मद की प्राप्ति और निर्गमन के विवरण निम्नांकित है: / The particulars of receipts and issue of an item of stores for month of May, 2014 are as follows:

2014, May	
1 opening Balance	500 Tonnes @ Rs. 10 per Tonne
5 Issue (Req. No. 228)	300 Tonnes
9 Receipt (Gr. R. No. 211)	600 Tonnes @ Rs. 11 per Tonne
13 Issue (Req. No. 323)	250 Tonnes
22 Receipt (G.R. No. 300)	100 Tonnes @ rs. 12 per Tonne
29 Issue (Req. No. 528)	400 Tonnes

सामग्री का निर्गमन साधारण औसत विधि के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर 'स्टोर्स लेजर' खाता बनाइये। / Material is issued on the basis of simple Average method. Prepare stores ledger Account on the basis of above particulars.

प्र. 2. "परित्यागक लागत निर्धारण की तकनीक एवं प्रविधि है।" कथन का विवेचन करते हुए लागत लेखांकन की प्रकृति को व्यक्त कीजिए। / "Costing is the technique and process of ascertainment of cost." State the nature of Cost Accounting explaining the statement.

(i) कु.पू.उ./P.T.O.

प्र. 3. श्रम निकासी से आपका क्या आशय है? इसे मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।/What do you mean by Labour Turnover? Discuss the various methods of its measurement.

प्र. 4. एक मशीन कारखाने में चार नई खरीदी गई मशीनें हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग समान स्थान घेरती हैं और जिनका लागत मूल्य क्रमशः अ. रु. 20,000; ब. रु. 25,000; स-रु. 30,000; और द. रु. 40,000 है।/A Machine shop contains four newly purchased machines, each occupying equal amount of space and costing respectively: A- Rs. 20,000; B- Rs. 25,000; C-Rs. 30,000 and D-Rs. 40,000.

मशीन कारखाने के वार्षिक खर्चे निम्नलिखित हैं- /The following are the expenses per annum of the machine shop.
Rent Rs. 10,000; Rates and water Rs. 4,250; Light and heat Rs. 3,110 Administration Exp. Rs. 9,500; work Exp. Rs. 20,000; Power: Machine A-Rs. 5,100; B-Rs. 5,000; C-Rs. 12,000; D-Rs. 14,000.
प्रत्येक मशीन की मशीन घण्टा दर ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि एक मशीन एक सप्ताह में 45 घण्टे काम करती है, एक वर्ष में 50 सप्ताह होते हैं, मशीन का 80 प्रतिशत उपयोग होता है और मशीन का जीवन 10 वर्ष है तथा अवशेष मूल्य शून्य है।/Calculate machine hour rate for each machine assuming 45 hours a week, 50 weeks per year: 80% utilisation and the life of the Machines being 10 years without any scrap value.

प्र. 5. उषा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने एक पुल बनाने का ठेका लिया। 1 जनवरी, 2014 को लागत लेखों से इस ठेके से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण उपलब्ध है।/Usha Construction company undertook a contract for the construction of a bridge. On 1st January, 2014 the following balances revealed from the costing records in respect of that contract.

(ii)

	Rs.	Rs.
Materials at site	7,500	Cost of work Uncertified
Plant at site	18,000	Profit reserved
Work certified (Value)	1,80,000	
(Cash received 80%)		

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यय किये गये।/During this year the following expenses were incurred.

	Rs.	Rs.
Materials	24,000	Wages accrued on 31-12-2014
Wages	32,000	Administrative Expenses
Wages accrued on 1.1.2014	1,500	Paid during the year
Materials at site	1,050	Administrative Expenses
Certified work during the year (Value)	1,80,000	Accrued on 1.1.2014
Uncertified Work (cost)	1,100	Contract price

प्लान्ट पर मूल्य हास का 10% वार्षिक दर से प्रावधान करना है। रु. 830 लागत की सामग्री ठेके के लिए अनुपयुक्त पायी गयी और उसे रु.790 में बेच दिया गया। 31 दिसम्बर, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ब्रिज ठेका खाता बनाइए तथा यह बताइए कि लाभ का कितना भाग लाभ-हानि खोते में ले जाया जाये।/Depreciation on plant is to be provided@ 10% p.a. Materials costing Rs. 830 was found unsuitable for the contract and was sold for Rs. 790. Prepare Bridge Contract Account for the year ending 31 December, 2014 and state as to what profit should be taken to P&L Account.

प्र. 6. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए/ Write short notes on

- (अ) अर्द्धनिर्मित माल का मूल्यांकन/Valuation of work in progress
- (ब) निविदा मूल्य का निर्धारण/ Determination of Tender price

(iii) कृ.पू.उ./P.T.O.

- प्र. 8. रेकड़ प्रबंध से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ व सीमाएं समझाइए।/
What do you understand by cash management? Explain the profit and limitations of cash management?

- प्र. 9. तीन कम्पनियों के बारे में विस्तृत सूचना नीचे दी गई है :

The details regarding three companies are given below :

A Ltd.	B Ltd.	C Ltd.
r= 12%	r=6%	r=8%
Ke=8%	Ke=8%	Ke=8%
E=Rs. 10	E=Rs. 10	E=Rs. 10

वाल्टर फार्मूले का प्रयोग करते हुए इन कम्पनियों के अंश का मूल्य ज्ञात कीजिए जब लाभान्श भुगतान अनुपात

- a) 20% b) 60% c) 0% d) 100%

Compute the value of an equity share if each of these companies applying walter's formula when dividend pay out ratio is -

- a) 20% b) 60% c) 0% d) 100%

The details regarding three companies are given below :

वाल्टर फार्मूले का प्रयोग करते हुए इन कम्पनियों के अंश का मूल्य ज्ञात कीजिए जब लाभान्श भुगतान अनुपात

- a) 20% b) 60% c) 0% d) 100%

- प्र. 10. टिप्पणी लिखिए – /Write short notes on

- a) वित्तीय नियोजन के प्रकार/Types of Financial Planning
b) वर्तमान मूल्य सूचकांक/Present Value Index



(iv)

(i) कु.पू.उ./P.T.O.

B.COM. THIRD YEAR EXAMINATION, 2015
(Correspondence Course)

PAPER - V : FINANCIAL MANAGEMENT

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

निर्देश : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt any five questions. Each question carries equal marks.

- प्र. 1. पूंजी बजटन से आप क्या समझते हैं? पूंजी बजटन प्रक्रिया को सविस्तार स्पष्ट कीजिए।/What do you understand by capital budgeting? Explain the procedure of capital budgeting in detail.

- प्र. 2. एक्स वाई जेड लिमिटेड एक मशीन क्रय करना चाहती है। दो मशीनें A तथा B उपलब्ध हैं, प्रत्येक की लागत 60,000 रु. है कर बाद परन्तु हास पूर्व आय अग्र प्रकार होने की आशा है। XYZ Ltd. is considering the purchase of a machine. Two machines A and B are available at the cost of Rs. 60,000 each. Earning after taxes and before depreciation are expected as follows :

Year	Machine A	Machine B
1	25,000	10,000
2	20,000	15,000
3	15,000	25,000
4	10,000	20,000
5	10,000	20,000

विकल्पों का चुनाव (i) पुनर्भुगतान अवधि विधि तथा (ii) पुनर्भुगतान अवधि बाद विधि द्वारा कीजिए।/Evaluate the two alternatives by using (i) pay back period method and (ii) post pay-back period method.

प्र. 3. भारित औसत पूंजी लागत की परिभाषा दीजिए। इसकी गणना कैसे की जाती है? उदाहरण की सहायता से समझाइए।/Define weighted average cost of capital. How will you determine it? Explain with the help of example.

प्र. 4. A तथा B दो फर्म हैं जिनमें प्रत्येक का पूंजीकरण 2,50,000रु. है। दोनों फर्मों में प्रत्येक फर्म ब्याज तथा कर पूर्व 40,000रु. अर्जित करती है फर्म A अपनी सम्पूर्ण पूंजी समता अंशों से प्राप्त करती है फर्म B ने 1,00,000 समता अंश पूंजी से 50,000रु. 10% ऋणपत्रों से तथा 1,00,000रु. 8% पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त किया है निगम कर दर 30% है फर्म B द्वारा समता पर व्यापार की अपनाई गई नीति पर टिप्पणी कीजिए।/There are two firms A and B. Both the firms have capitalisation of Rs. 2,50,000 each. Both the firms earn Rs. 40,000 each before Interest and taxes. Firm A has obtained its whole capital through ordinary shares firm B has obtained Rs. 1,00,000 through ordinary shares, Rs. 50,000 through 10% Debentures and Rs. 1,00,000 through 8% preference shares. Corporate tax rate is 30%. Comment on the policy of trading on equity followed by firm B.

प्र. 5. ए बी सी लिमिटेड कम्पनी की पूंजी संरचना निम्न प्रकार है –

ABC Ltd. has the following capital structure :		
Capital structure:	Rs.	
Equity share capital	10,00,000	
10% Preference share capital	10,50,000	

(ii)

8% Debenture 12,50,000

The earning before interest and tax (EBIT) is Rs. 5,00,000. The rate of income tax is 30%.

वित्तीय उत्तोलक की गणना कीजिए।/Calculate the financial leverage.

प्र. 6. लाभांश का अर्थ समझाइए एवं इसके विभिन्न प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए?/What do you mean by the dividend? Explain the different types of dividend.

प्र. 7. 31 मार्च 2009 को राम एण्ड कम्पनी के निम्न चिह्ने से सकल व शुद्ध कार्यशील पूंजी ज्ञात कीजिए।/From the Balance Sheet of Ram & Company Ltd. for the year ending on March 2009 calculate gross and Net working capital:

Balance Sheet of Ram & Co. Ltd.
as on 31st March, 2009

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount
8% Preference share capital	15,000	Land and Building	45,000
Equity share capital	60,000	Plant and Machinery	23,000
Reserve and surplus	5,000	Furniture	12,000
10% Debenture	10,000	Stock	6,000
Long term Loan	5,000	Debtors	13,000
Trade Creditors	3,000	Bills Receivables	3,000
Bills payable	2,000	Bank	2,000
Bank Overdraft	5,000	Cash	1,000
Total	1,05,000	Total	1,05,000

(iii)

कु.पू.उ./P.T.O.

B.COM. THIRD YEAR EXAMINATION, 2015

(Correspondence Course)

PAPER - VI : PRINCIPLES OF MARKETING**TIME : 3.00 HRS.****MM : 70***निर्देश : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।**Note : Attempt all questions. Each question carries equal marks.*

उत्पाद जीवन चक्र के विचार को समझाइये। विपणन में इसकी महत्ता का मूल्यांकन कीजिये। / Discuss the concept of 'Product Life Cycle' Evaluate its importance in marketing.

प्र. 4. छाया नाम और व्यापार मार्क में क्या अन्तर है? इन दोनों का चुनाव करते समय किन मुख्य-मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। / Distinguish between 'Brand name' and 'Trade mark'. Indicate what characteristics are desirable in the selection of brand name and trade marks.

अथवा/OR

एक उत्पाद के मूल्य निर्धारण के लिए किन मुख्य तत्वों का आप विचार करेंगे। उनका समझाइए। मूल्य निर्धारण में सम विच्छेद विश्लेषण किस प्रकार सहायक हो सकता है? / Explain the major factors that you would take into consideration while pricing a product? How Can break even analysis help in price fixation?

प्र. 5. वितरण के उपयुक्त माध्यम का चुनाव करते समय ध्यान में रखे जाने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए। / Explain the factors determining the choice of suitable channel distribution.

अथवा/OR

उपभोक्ता संवर्द्धन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं? विस्तार से समझाइये। / What are the various consumer promotion methods? Explain in detail.

◆◆

प्र. 1. विपणन क्या है? महत्व को स्पष्ट कीजिए। / What is marketing? Explain its importance.

अथवा/OR

विपणन संमिश्रण से आप क्या समझते हैं? विपणन संमिश्रण के तत्वों को विस्तार से बतलाइये। / What do you mean by 'Marketing Environment'? Clearly explain the nature of marketing environment.

प्र. 2. उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न सिद्धान्तों को स्पष्ट कीजिए। / Define consumer Behaviour. Explain its various theories.

अथवा/OR

बाजार विभक्तिकरण का अर्थ समझाइये। बाजार विभक्तिकरण के लिए किन-किन आधारों का प्रयोग किया जाता है? / Explain the term 'Market Segmentation' What criteria are used for segment meaning a market?

प्र. 3. 'एक फर्म के सम्पूर्ण विपणन कार्यक्रम के लिए उत्पाद नियोजन आरम्भ स्थान है' विवेचन कीजिए। / 'Product planning is a starting point for an overall marketing programme' Discuss it.

अथवा/OR

(ii)

(i) कु.पू.उ./P.T.O.

‘क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों’ पर एक लघु लेख लिखिए।
Write a short essay on Regional Rural Banks.

प्र. 4. मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? भारत की मौद्रिक नीति का परीक्षण कीजिये।

What do you mean by monetary-policy? Examine the monetary Policy of India.

अथवा/OR

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में हुए प्रमुख आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिये।
Describe the main reforms in Banking Sector in India.

प्र. 5. भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1945 की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिये।

Describe the necessity & objects of Indian Banking Act 1949.

अथवा/OR

निम्न पर टिप्पणियाँ लिखो।/Write notes on :

(i) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

National Agriculture & Rural Development Bank

(ii) चयनात्मक साख नियंत्रण

Selective credit control



(ii)

D135

CBCOM307

B.COM. THIRD YEAR EXAMINATION, 2015
(Correspondence Course)

PAPER -VII : INDIAN BANKING SYSTEM

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

निर्देश : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt all questions. Each question carries equal marks.

प्र. 1. बैंक की परिभाषा दीजिये। बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिये।

Define Bank Describe the main functions of a Bank.

अथवा/OR

एक बैंक के चिह्ने का प्रारूप दीजिये। इसकी विशेषताएं एवं महत्त्व बताइये।

Give the format of Balancesheet of a Bank. Explain its main features & significance.

प्र. 2. भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

Critically examine the credit control policy of Reserve Bank of India.

अथवा/OR

भारतीय रिजर्व बैंक की उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

Critically examine the achievements of Reserve Bank of India.

प्र. 3. भारत में सहकारी बैंकों की ग्रामीण विकास में भूमिका का वर्णन कीजिये।

Describe the role of co-operative Banks in India for the rural development.

अथवा/OR

(i) कृ.पृ.उ./P.T.O.